



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]
No. 133]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2007/चैत्र 1, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2007/CHAITRA 1, 1929

भ्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007.

सा.का.नि. 228(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2007 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में,—

(i) पैराग्राफ 72 में, उप-पैराग्राफ (6) में "अदावाकृत जमा खाता" शब्द के लिए "अग्रवृत्त खाता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पैराग्राफ 72 में, उप-पैराग्राफ (6) के, परन्तुक में, "अदावाकृत जमा खाता" शब्द के लिए "अग्रवृत्त खाता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एस-35012/3/2006-एस एस-II]

गुरजोत कौर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल स्कीम का.नि.आ. 1509 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और इसमें का.आ. 1190(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2006 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2007.

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Sub-section (1) of Section 7 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely : —

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2007.

(2) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,—

(i) In paragraph 72, in sub-paragraph (6), for the words "Unclaimed Deposits Account", the words "Inoperative Account" shall be substituted.

(ii) In paragraph 72, in sub-paragraph (6), in the proviso, for the words "Unclaimed Deposits Account", the words "Inoperative Account" shall be substituted.

[F. No. S-35012/3/2006-SS-II]

GURJOT KAUR, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and last amended *vide* number S.O. 1190(E), dated the 27th July, 2006.